

May 25, 2022

**The Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited**
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001
BSE Scrip code – [532541]
Non-Convertible Bond ISIN INE591G08012

**The General Manager,
Department of Corporate Services
The National Stock Exchange of India Limited**
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra, Mumbai – 400 051
NSE Scrip code – [COFORGE]

Dear Sir(s),

Sub: Newspaper publication-Intimation of Loss of Share Certificate.

Dear Sirs/Madam,

We wish to inform that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the “Notice of Loss of Share Certificate” In the following newspapers.

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take this on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours truly,

**For Coforge Limited
(Erstwhile NIIT Technologies Limited)**

**Barkha Sharma
Company Secretary
ACS: 24060**

Branch- Jaipur Road, District - Dausa (Raj.)

APPENDIX IV (Rule 8(i)) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 19/02/2022 calling upon the Borrower Smt. Mamta Devi Sharma W/o Sh. Goverdhan Sharma to repay the amount mentioned in the notice being amount in Overdraft Loan Account Rs. 23,62,314/- including interest upto 17.02.2022 and further interest, other expenses from 31.01.2022 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13 and sub Section (4) of the said Act read with Rule 8 of the security interest (Enforcement) Rule 2002 on this the 19th day of Month May of the year 2022.

The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of Baroda for an amount in Rs. 24,52,701/- (reversal interest + Cost and further interest + other expenses from 17.05.2022). The Borrowers attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

All that part and parcel of Residential Property situated at Plot No. 807/1, Khasra No. 310, Ayodhya Nagar, Senthall Road, Revenue Village, Dausa Kala, Tehsil Dausa, Distt. Dausa in the name of Smt. Mamta Devi Sharma W/o Sh. Goverdhan Sharma (admeasuring 1800 Sq. ft. or 200 Sq. yds. as per records available in bank), Bounded by: East: Plot No. 807/2, West: Plot No. 808, North: Plot No. 814 & 20 Ft. Wide Common Way, South: 18'3" ft wide common way.

Authorized Officer,
Bank of Baroda

Date: 19.05.2022 Place: Dausa (Raj.)

Branch- Jaipur Road, District - Dausa (Raj.)

APPENDIX IV (Rule 8(i)) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 17/02/2022 calling upon the Borrower Smt. Aasha Sharma and Sh. Rajendra Sharma to repay the amount mentioned in the notice being amount in Overdraft Loan Account Rs. 21,50,266/- including interest upto 17.02.2022 and further interest, other expenses from 31.01.2022 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13 and sub Section (4) of the said Act read with Rule 8 of the security interest (Enforcement) Rule 2002 on this the 19th day of Month May of the year 2022.

The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of Baroda for an amount in Rs. 22,63,568/- (reversal interest + Cost and further interest + other expenses from 17.05.2022). The Borrowers attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

All that part and parcel of Residential Property situated at Plot No. 807/3, Khasra No. 310, Ayodhya Nagar, Senthall Road, Revenue Village, Dausa Kala, Tehsil Dausa, Distt. Dausa in the name of Smt. Aasha Sharma & Sh. Rajendra Sharma (admeasuring 1350 Sq. ft. or 150 Sq. yds. as per records available in bank), Bounded by: East: Plot No. 806, West: Plot No. 807/2, North: Plot No. 815, South: 18'3" ft wide common way.

Authorized Officer, Bank of Baroda

Date: 19.05.2022 Place: Dausa (Raj.)

RELIGARE HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.

Corporate Office: 8th Floor, Max House Block A, D.R. Jha Marg, Okhla Phase 3, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020.
Central Office: A-34/5, Club 125, Tower B, 2nd Floor, Sec-125, Noida-201301.

POSSESSION NOTICE (Appendix IV) Rule 8(1)

Whereas the Authorized Officer of Religare Housing Development Finance Corporation Ltd., a Non Banking Financial Company (duly registered with Reserve Bank of India) under the provision of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) (hereinafter referred to as "SARFAESI Act, 2002") having its Registered Office at 1ST Floor, P-14, 45/90, P-Block, Connaught Place, New Delhi - 110001, (hereinafter referred to as "RHDFCL") and in exercise of the powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 issued a Demand Notice dated 14-Sep-2021 calling upon: 1. Kishan Suzi S/o Dil Bahadur Suzi, 2. Subhadra Suzi W/o Kishan Suzi, Both Add.: WZ 829A Naraina Village South West Delhi, Delhi-110028, Both Also At: Plot No. 77 A Khasra No. 814 Situated in Yamuna Vihar Correspondence Address & E-mail ID: Pargana & Tehsil Loni District Ghaziabad U.P. To repay the amount mentioned in the notice being Rs. 4,99,462/- along with interest as on 10/09/2021 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

"The borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 20th day of May, 2022

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of "RHDFCL" for an amount of Rs. 4,99,462/- and interest other charges thereon 10/09/2021.

The attention of the Borrower is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES IS AS UNDER:-

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING PLOT NO. 77 A AREA MEASURING 50 SQ. YARDS PART OF KHASRA NO. 814 SITUATED IN YAMUNA VIHAR RESIDENCY VILLAGE MEERPUR HINDU PARGANA & TEHSIL LONI DISTRICT GHAZIABAD U.P.

Place : Loni, Ghaziabad
Date : 20.05.2022

Authorized Officer
M/s Religare Housing Development Finance Corporation Ltd

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
.....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

Zonal Sastra Centre, Plot No. 5, Institutional Area, Sector - 32, Gurugram - 122001

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical/symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

SCHEDULE OF SALE OF THE SECURED ASSETS

| Name of the Branch | (A) Date of Demand Notice U/s 13(2) of Sarfesi Act 2002 | Description of the Immovable Properties Mortgaged/ Owner's Name (mortgagers of property(ies)) | RESERVE PRICE | DATE/ TIME OF E-AUCTION | Details of the encumbrances known to the secured creditors |
|---|---|--|--|------------------------------------|---|
| Name of the Account | (B) Amount as per Demand Notice | | EMD (Last date of deposit EMD) | | |
| Name and Addresses of the Borrower/Guarantors Account | (C) Possession Date u/s 13(4) of Sarfesi Act 2002 | | Bid Increase Amount | | |
| PNB LCB-Gurgaon | A) PNB: 30.12.2015, Union Bank of India (erstwhile Corporation Bank) : 06.02.2016 Pegasus Asset Reconstruction Pvt Ltd: 01.02.2016 ICICI Bank: 08.12.2015 Kotak Mahindra Bank: 03.02.2016, Yes Bank: 27.04.2015 | 1) Unit bearing No-501 on the fifth floor, Building A-2, Jagdamba Commercial Complex, Malad West, Mumbai owned by Mr Ajay Kumar Bishnoi** | Rs. 456.00 Lacs # | 17.06.2022 11:00 AM to 04:00 PM | Municipal Tax & Maintenance dues Rs. 39,16,983/- is outstanding till 31.03.2020 as per demand letter from builder dated 14.09.2020 |
| Hytho Power Corporation Limited | B) PNB: Rs 11499.38 lacs and outstanding bank guarantees of Rs 6794.93 lacs as on 30.12.2015, Union Bank of India (erstwhile Corporation Bank) : Rs 5991.27 lacs as on 06.02.2016, Pegasus Asset Reconstruction Pvt Ltd: Rs 2110.14 lacs as on 31.12.2015, ICICI Bank: Rs 7478.62 lacs as on 30.11.2015, Kotak Mahindra Bank: Rs. 4519.04 lacs as on 31.01.2016, Yes Bank: Rs 1817.11 lacs as on 26.04.2016 plus interest and charges | 2) Unit bearing No-502 and 503 on the fifth floor, Building A-2, Jagdamba Commercial Complex, Malad West, Mumbai owned by Ajay kumar Bishnoi and by Mr Amul Gabrani ** 3) Unit bearing No-504 on the fifth floor, Building A-2, Jagdamba Commercial Complex, Malad West, Mumbai owned by Sh Amul Gabrani ** | Rs. 45.60 Lacs (16-06-2022) | | |
| | (C) 03.04.2018 | **All the above units will be sold on consolidated basis as there is no demarcation between the units. Total Carpet Area of the above units is 3056.95 sq. ft. Total Saleable Area as per Valuation reports is 4278.24 sq. ft. | Rs 1,00,000/- | | |
| | (D) Physical | | # Consolidated Reserve Price for all the units | | |

BRIEF TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE: The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: (1) The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" (2) The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorized Officer, but the Authorized Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. (3) The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website <https://www.mstcecommerce.com> on date and time of auction specified above. (4) For detailed term and conditions of the sale, please refer www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, <https://procure.gov.in/publish/app> & www.pnbindia.in

STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

(Ram Babu) Chief Manager, Authorized Officer, Secured Creditor, Mob: 9897209897,
AUTHORIZED OFFICER, PUNJAB NATIONAL BANK

Date: 24-05-2022, Place : Gurugram

NOTICE UNDER REGULATION 37A OF LIQUIDATION PROCESS REGULATIONS (IBC 2016) M/s ALUPAN COMPOSITE PANELS PRIVATE LIMITED (In Liquidation)

The undersigned had published an invitation for offers on 04.02.2022 for Assignment of Not Readily Realizable Assets of M/s ALUPAN COMPOSITE PANELS PRIVATE LIMITED as tabled below including litigation and consequential rights in avoidance applications pending with NCLT, under Regulation 37A of the Liquidation Process Regulations, 2016, on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECURSE BASIS". An offer for Rs. 6 lakhs has been received for the same. This is an invitation for offers above this amount, the same may be submitted with EMD of 10% to the liquidator latest by 04.06.2022.

LIST OF NOT READILY REALISABLE ASSETS

| Particulars | Amount (INR) | Amount (INR) |
|--|----------------|--------------|
| Investment in Shares of Arion Commercials Pvt Ltd. | | 50,00,000 |
| Long Terms Loan & Advance | | 1,08,72,285 |
| Investment in Mutual Funds | | 25,000 |
| Trade Receivables | | 13,33,84,240 |
| Bank Balance (actually Adjusted By Banks Against Loans) | | 15,467 |
| Short Terms Loan & Advance | | 1,33,34,875 |
| Margin Money With Banks (actually Adjusted By Banks Against Loans) | | 4,57,001 |
| Sub Total | | 16,30,88,868 |
| Avoidance Application in NCLT | | |
| Undervalued Transactions Under Sec 48 1 C | 2,10,45,000.00 | |
| Transactions Under Sec 66 | 2,44,35,000.00 | 4,54,80,000 |
| Grand Total | 4,54,80,000.00 | 20,85,68,868 |

For further details please refer to the Process Information Document uploaded on website www.arcl.in.

Interested parties may submit their offers to the undersigned latest by 04.06.2022 by 5.00 PM. The assignment will be subject to the Provisions of the IBC 2016, Regulations made thereunder and the process information document.

Correspondence email: insolvency@arcl.in
Correspondence Tel. No.: 011-45101111

Ashok Kumar Dewan
IBBI Reg. No.: IBB/PA-001/IP-P00603/2017-18/11054
Liquidator-ALUPAN COMPOSITE PANELS PVT LTD.
Regd. Add: Flat No. A-10, Indian Statistical Institute
7, SJS Sansanwal Marg, New Delhi, National Capital Territory of Delhi - 110016
Correspondence Address & E-mail ID:
Date: 25-05-2022 409, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001
Place: New Delhi Ph: 011-45101111, Mob.: 9810191945, E-Mail: insolvency@arcl.in

PUBLIC NOTICE-AUCTION CUM SALE OF PROPERTIES

Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrowers and Guarantors that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of Asset Reconstruction Company India Ltd (Arcil) an Asset Reconstruction Company registered with Reserve Bank of India under the provisions of the SARFAESI Act, 2002. Arcil has acquired from the banks/financial institutions mentioned below the financial assets and has acquired the rights of the Secured Creditor. The assets will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis as per the brief particulars given hereunder as per below mentioned schedule:

| Sl No | Loan Account Number / Name of Bank Financial Institution | Name of Original Borrower/ Co-Borrower / Guarantor | Trust Name | Type/Size/ Nature of Property | Total dues Outstanding in INR | Earnest Money Deposit (EMD) in INR | Reserve Price in INR | Date of Inspection | Date and Time of Auction | Type of Possession |
|-------|--|--|---|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. | 401LAP010052743/ 401BLF25171696 & Bajaj Finance Ltd | Manish Modi/ Neha Modi/ Vinay Modi/ Kuber Ji Metal | Arcil Retail Loan Portfolio-042-D Trust | Land :NA Area:- 100 Sq yard (Freehold) | 80,86,328.68/- as on 23.05.2022 | 4,00,000/- | 40,00,000/- | 02-June-22 | 12-June-22 3:00 pm | Physical |

Secured Property Address: Property Bearing No 16A Second Floor West Arjun Nagar Gali No 1 Krishna Nagar Delhi-110051

Important information regarding Auction Process

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1 Auction Date | As mentioned herein above | 5 Last date for Submission of EMD | Same day 2 hours before Auction |
| 2 Place for Submission of Bids and Place of Auction | Unit No. 1008, 11th Floor, West End Mall, Janakpuri District Centre, New Delhi-110058. | 6 All payments including EMD to be made by way of Demand Draft/RTGS/NEFT payable at | New Delhi |
| Bids can be submitted online / in person depending upon the Covid situation in Branch locality. | | | |
| 3 Web-Site For Auction | www.arcl.co.in | 7 Name in whose favour Demand Drafts to be drawn | The name as shown in Trust Column against each property. |
| 4 Contact Persons with Phone Number | Ashfaq Patka 9819415477, Krishna Gupta 9630913556 & Vikram Singh : 8860122299 | 8 Time of Inspection | 10:00 am - 5:00 p.m. Note : Date & Time of inspection may be changed in view of Covid-19 situation |

* A bidder may, on his own choice, avail the facility of online participation in the auction by making application in prescribed format which is available along with the offer/tender document on the website address mentioned herein above. Online bidding will take place at website of organization as mentioned herein above, and shall be subject to the terms and conditions contained in the tender document. The Tender Document and detailed Terms & Conditions for the Auction may be downloaded from our website www.arcl.co.in or on the same may also be collected from the concerned Branch office of Arcil as stated above. Please note that sale shall be subject to the terms and conditions as stated in the Bid Document. Sale is strictly subject to terms and conditions incorporated in this advertisement and the prescribed Bid/Tender Document. The Authorized Officer reserves the right to reject any/all bids without assigning any reason. This notice is also to be treated as a notice under Rule 8 and 9 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002.

Place : New Delhi
Date: 25.05.2022

Asset Reconstruction Company (India) Ltd., CIN : U65999MH2002PLC134884,
Registered Office: The Ruby, 10th Floor, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400 028 Tel: + 91 2266581300 www.arcl.co.in
Branch Address: Unit No. 1008, 11th Floor, West End Mall, Janakpuri District Centre, New Delhi- 110 058. Tel.: 928919262- 67

Sd/- Authorised Officer
Asset Reconstruction Company (India) Ltd.,

इंडियन बैंक Indian Bank

अलहाबाद ALLAHABAD

Zonal Office: Delhi Central, 17, Parliament Street, 1st Floor, Allahabad Bank Building, New Delhi-110001
Corporate office: 254-260, AVVAI shanmugam Salai, Royapettah Chennai-600014

"APPENDIX- IV-A" [See proviso to rule 8 (6)]
SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of Indian Bank (e-Allahabad Bank), Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 28.06.2022 for recovery of dues. The specific details of the properties intended to be brought to sale through e-auction mode are enumerated below:

| S. No. | Name of the Borrower(s) | Name of the Guarantor(s) / Mortgagor(s) | Details of Immovable/Movable Property/ies | Physical / Constructive Possession | Amount of Secured Debt as on 23-05-2022 | Reserve Price Earnest Money Deposit |
|--------|--|--|---|--|--|--|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (viii) |
| 1 | M/s Ved Varat Prop. Mr. Ved Varat Branch: DRM Office | Mortgagor: Mr. Ved Varat S/o Khyali Ram | Residential House No. 1035 C /30, Gali No. 4, Vikas Nagar, Kakroi Road, Near Vishwa Karma Mandir, Sonapat, Haryana-131001; admeasuring 94 sq.yd | Symbolic Possession; CMM orders for physical possession obtained | Rs. 50.23 Lac + Interest & other expenses till realisation of Bank's dues | ₹. 33.00 Lac ₹. 3.33 Lac ₹. 0.33 Lac |
| 2 | Mr. Amit Kumar and Ms Bhawana Kumari Branch: Punjabi Bagh | Mortgagor/Guarantor: Mr. Amit Kumar S/o Jagat Narayan Singh Ms Bhawana Kumari W/o Amit Kumar | Residential Flat No. 401, Plot No. 9, Om Vihar, Phase-1, Uttam Nagar, West New Delhi-110052 | Symbolic Possession | Rs. 29.77 Lac + Interest & other expenses till realisation of Bank's dues | ₹. 33.39 Lac ₹. 3.33 Lac ₹. 0.33 Lac |
| 3 | M/S Dorteck Doors India Pvt. Ltd. Director: Mr. Vikas Garg and Mr. Mohinder Singh Garg Branch: Rohini | Mortgagors: Mr. Vikas Garg S/o Mr Mohinder Singh Garg Smt Preeti Garg W/o Mr Vikas Garg Guarantors: Mr Mohinder Singh Garg S/o Mr CB Garg | Industrial property at plot No. 333, phase-IV, sector-57, HSIDC, Industrial Estate, Kundli, Soapat, Haryana admeasuring 1012.50 sq.mtr Residential property at Flat No-B-4/44 and 45, Ground floor, Block-B, Pocket-4, Sector-11, Rohini, Delhi-110085 admeasuring 96 sq. mtr. | Symbolic Possession | Rs. 872.00 Lac + Interest & other expenses till realisation of Bank's dues | ₹. 769.00 Lac ₹. 76.90 Lac ₹. 7.70 Lac ₹. 120.00 Lac ₹. 12.00 Lac ₹. 1.20 Lac |
| 4 | M/s Sannesh Enterprises Pvt Ltd Directors Mr Sandeep Suuroach, Mr Muneesh Surroach, Mr Jagdish Chand Surroach Branch: Vikaspuri | Mortgagors: Mr Jagdish Chand Surroach S/o Lt.Kali Dass Guarantors: Mr Sandeep Suuroach Mr Muneesh Surroach S/o Mr Jagdish Chand Surroach | Residential property at Flat No-K-309 Ground floor, Block-K, Kangra Niketan, Kangra Adarsh C.G.H.S Ltd, Vikashpuri, New Delhi-110018 admeasuring 65 sq.mtr | Symbolic Possession | Rs. 34.27 Lac + Interest & other expenses till realisation of Bank's dues | ₹. 80.00 Lac ₹. 8.00 Lac ₹. 0.80 Lac |

Date and Time of e-Auction On 28.06.2022 between 11.00 a.m. to 5.00 p.m. with unlimited extensions of 10 minutes each. Minimum Bid incremental amount is as mentioned above.

For more details, interested bidders may contact the following:
• For property mentioned in S.no.1 - Sarbeswar Sahoo (Ph: 011-23364535)
• For property mentioned in S.no.2 - Md. Zafar (Ph: 011-23275416)
• For property mentioned in S.no.3 - Mr. Himanshu Singh (Ph: 011-45131832)
• For property mentioned in S.no.4 - Mr. Vinod Kumar (Ph: 011-25547250)
Email: zodelhicentral@indianbank.co.in

Bidders are advised to visit the website (www.mstcecommerce.com) of our e auction service provider MSTC Ltd to participate in online bid. For Technical Assistance please call MSTC HELPDESH No. 033-22901004 and other help line numbers available in service providers help desk. For Registration status with MSTC Ltd, please contact ibapiop@mstcecommerce.com and for EMD status please contact ibapi@mstcecommerce.com.

For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: <https://ibapi.in> and for clarifications related to this portal, please contact help line number "18001025026" and "011-4106131".

Date : 24-05-2022, Place : New Delhi
Authorized Officer, Indian Bank

पंजाब नैशनल बैंक Bank of Baroda

Branch: Tripoliya Bazar, Jaipur

POSSESSION NOTICE (For Immovable property/ies)

(As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas, The undersigned being the authorized officer of the Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice Dated 16.07.2021 Calling upon the borrower- M/s Village Craft Proprietor- Mrs. Pratibha Mohil W/o Mr. Suresh Mohil to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 17,15,590.70 (Rupees Seventeen Lakh Fifteen Thousand Five Hundred Ninety and Paise Seventy only) as on 16.07.2021+ Int. & Other charges (inclusive of interest upto 31.03.2021) together with further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the Public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this the 21st day of May of the year 2022.

The Borrower/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of Bank of Baroda, Branch - Tripoliya Bazar, Jaipur, for an amount of Rs.17,21,412.03 (Rupees Seventeen Lakh Twenty One Thousand Four Hundred Twelve Only & Three Paise) + Int. & other charges (inclusive of interest upto 31-03-2021) and further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment.

The Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of Patta No. 57, Village Lavan, Panchayat Samit:-Dausa and District:-Dausa Raj, Admeasuring area242.00 Sq. Yds. Bounded by: North: Road, South: Other Property, East: Property of Mr. Rajesh Rajput, West: Main Market Road.

Date: 21.05.2022 Place: Tripoliya Bazar, Jaipur (Mr. Gurdeep Singh Saini) Authorized Officer

BRANCH: - BHIWADI-EAB (RAJASTHAN)

Possession Notice (For Immovable Property) (Under Rule-8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas: The undersigned being the authorized officer of the Indian Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 10/01/2022 calling upon the Borrower/Mortgagor- 1. Mrs. Sonia Saini w/o Shri Ram Saini (Borrower & Mortgagor), 2. Mr. Shish Ram Saini S/o Lal Chand Saini (Borrower & Guarantor) to repay the amount mentioned in the notice being Rs.27,85,374/- (Rupees Twenty Seven Lacs Eighty Five Thousand Three Hundred Seventy Four Only) due as on 31.12.2021 along with further interest at the agreed rate from 01.01.2022 & other charges till date of repayment within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower/Guarantor/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor/Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules, on this 23rd May of the year 2022. The Borrower/Guarantor/Mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank for Rs.27,85,374/- (Rupees Twenty Seven Lacs Eighty Five Thousand Three Hundred Seventy Four Only) due as on 31.12.2021 along with further interest at the agreed rate from 01.01.2022 & other charges till date of repayment.

The Borrower/Guarantor/Mortgagor attention is invited to provisions of section 13(8) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that Part and Parcel of the property consisting of - Residential Flat situated at Flat No. E-101, 1st Floor, Krish Vatika Main Alwar Road Bhiwadi, Raj-301019 admeasuring 1520 Sq. Feet registered in the name of Smt. Sonia Saini w/o Shri Ram Saini and bounded as under:- East: Internal Parking, North : Internal Road, West : Flat no. E-103 & E-104, South: Flat no E-102

Date: 23.05.2022, Place: Bhiwadi
Chief Manager & Authorised Officer, Indian Bank

Coforge Coforge Limited
(erstwhile NIIT Technologies Limited)

CIN: L72100DL1992PLC048753

Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019.
Ph: 91 (11) 41029297 Fax: 91 (11) 26414900
Email: investors@coforge.com Website: <https://www.coforge.com>

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company is reported lost/misplaced by the shareholder/s. The shareholder/s has thereof applied to the Company for the issuance of duplicate share certificate:

| Folio No. | Name of the Registered holder | Jointholder 1 | Jointholder 2 | Certificate No. | Distinctive Nos. | No. of Shares |
|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 3204 | RENUKA | PRASHANT | TONI | 3233 | 10974123 - 10974123 | 1 |
| 3205 | RENUKA | TONI | PRASHANT | 3234 | 10974124 - 10974124 | 1 |
| 3207 | RENUKA | TONI | PRASHANT | 3236 | 10974126 - 10974126 | 1 |
| 4826 | SAVITRI DEVI BHATIA | TONI | KAMAL | 4168 | 10982719 - 10982719 | 1 |
| 3207 | RAKHI GUPTA | - | - | 4876 | 10983369 - 10983369 | 1 |

Any person who has claim in respect of the above shares should communicate the same to the Company at its Registered Office (at above address) within 15 (fifteen) days from the date of this advertisement. The Company shall thereafter proceed to issue duplicate share certificate/s in respect of these shares. Thereafter any person dealing with such share certificate/s will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner.

For and on behalf of
Coforge Limited
(erstwhile NIIT Technologies Limited)
Sd/-
Barkha Sharma
Company Secretary

Dated : May 24, 2022
Place : Noida

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT

E-Procurement Notice INVITATION FOR BIDS(IFB)

The Executive Engineer, HPPWD, Solan Distt. Solan H.P. on behalf of Governor of H.P. invites the item rate bids, in electronic tendering system, from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the work as detailed in the table.

| Sr. Name of work No | Estimated cost | Starting Date for down-loading Bid | Earnest Money | Deadline for submission of Bid. |
|--|----------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. "Restoration of rain damages on Solan Meenus road Km.2/0 to 9/300 (SH- Construction of PCC retaining wall at R.D.8/600 to 8/615". | 15,09,501/- | 01.06.2022 10:00 HRS | 30,150/- | 10.06.2022 10:30 HRS |
| 2. "C/o Ambulance road from Power House at Shirdi Km.0/0 to 0/800 (SH-P/L CC Paver block on approach road Km.0/110 to 0/470" | 16,17,712/- | 01.06.2022 10:00 HRS | 31,80 | |